



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-08.06.2022

थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त किशन गुप्ता गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-219/22 धारा 302/504 भादवि व 3(2)(V) SC/ST एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त किशन गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता ग्राम पिसौर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी तरना बाबतपुर जाने वाले रोड से दिनांक-07.06.2022 को समय करीब 17.30 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशांदाही पर 01 अदद आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

दिनांक-06.06.2022 को वादी श्री बब्लू सोनकर पुत्र बच्चेलाल सोनकर नि0-सोनकर बस्ती थाना शिवपुर वाराणसी द्वारा ने भवानीपुर में खुद के भाई संदीप सोनकर की हत्या अभियुक्त किशन सोनकर उपरोक्त के द्वारा कर देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना शिवपुर मे मु0अ0सं0-219/22 धारा 302/504 भादवि व 3(2)(V) SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया । उक्त मुकदमे की विवेचना श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैंट द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

किशन गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता ग्राम पिसौर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी, उम्र 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- एक अदद आलाकत्ल चाकू ।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त किशन गुप्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक-05.06.22 को मैं ग्राम भवानीपुर में राजेश पटेल की लड़की की शादी में गया था । वहाँ पर संदीप सोनकर, सूर्यप्रकाश कन्नौजिया व आकाश गुप्ता बैठे थे और हम सभी लोग खाना खा रहे थे तभी संदीप ने मुझे मिट्टी का ढेला मारा, मैंने मना किया तो मेरा संदीप से झगड़ा हो गया और गाली-गुप्ता भी हुआ, लोगों ने बीच-बचाव किया । मैं खाना खाकर चला गया और जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा स्कूटी पर ही बैठा था तभी पीछे से सूर्य प्रकाश कन्नौजिया अपनी मोटरसाइकिल पर संदीप सोनकर को बैठाकर आया तथा मुझे संदीप सोनकर गाली देने लगा, मैं गुस्से में आ गया और अपने घर के अन्दर जाकर चाकू लाया और दो से तीन बार संदीप के पेट में चाकू मार दिया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक एस०आर० गौतम, उ०नि० प्रदीप कुमार यादव, उ०नि० अमरीश कुमार राय, उ०नि० स्वतन्त्र सिंह, उ०नि० प्र० धीरज कुमार सिंह, हे०का० अवनीश कुमार राय, हे०का० रमाकान्त यादव, हे०का० संतोष शाह, म०का० हिमान्शु सिंह, का० आलोक कुमार शर्मा, का० शिवबाबू, का० आलोक कुमार मौर्या, का० अमित शुक्ला व का० नीरज मौर्या थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

